

## स्प्रिट से तैयार की जा रही नकली देसी शराब



Publish Date: Fri, 25 Sep 2020 08:00 AM (IST) Author: **Jagran**

*देवरिया जिले में कई जगह बरामद हो चुकी है नकली शराब।*

देवरिया: जिले में स्प्रिट व यूरिया से देसी शराब तैयार कर पड़ोसी प्रांत बिहार में बड़े पैमाने पर भेजी जा रही है। कार्रवाई के नाम पर सामान्य शराब बरामद की जा रही है। कुछ लाइसेंसी दुकानों से भी अवैध तरीके से शराब बेचे जाने की शिकायत मिली। ऐसे विक्रेताओं की जांच भी हुई लेकिन विभाग ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया।

सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के दियाढार गांव में एक मकान में बड़े पैमाने पर स्प्रिट से नकली शराब तैयार होने की सूचना पर 23 दिन पूर्व पुलिस ने छापा मारा। यहां से बड़े पैमाने पर स्प्रिट, उससे तैयार नकली शराब भी बरामद की गई। यह भी सूचना मिली कि यहां तैयार की गई शराब की आपूर्ति पड़ोसी प्रांत बिहार के अलावा जिले की देसी शराब की दुकानों पर भी होती है। हालांकि जांच में देसी शराब की दुकानों पर आपूर्ति की पुष्टि नहीं हो सकी।

गौरीबाजार थाना क्षेत्र के जोगिया में आबकारी व पुलिस की टीम ने 12 सितंबर को छापेमारी कर 20 पेट्टी नकली देसी शराब बरामद की। यहां से भी स्प्रिट, यूरिया व अन्य सामग्री बरामद की गई थी। यहां की भी तैयार शराब बिहार भेजे जाने की जानकारी विभाग को मिली थी। यह तो केवल बानगी मात्र है। जिले में अन्य कई जगहों पर नकली शराब तैयार की जा रही है।

ऐसे बेची जा रही है शराब

जिले में सबसे अधिक बिकने वाली देसी शराब की बोतल व शीशी तस्कर मंगा लेते हैं। उसी में नकली शराब भर देते हैं। शराब की शीशी व बोतल पर बार कोड भी लगाया जा रहा है। बार कोड लगते ही यह शराब आसानी से बेच दी जाती है।

पुलिस अधीक्षक डा. श्रीपति मिश्र ने कहा नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए इन अवैध धंधेबाजों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/deoria-fake-country-liquor-being-prepared-from-spirit-20793814.html>